

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  
अंसारी नगर, नई दिल्ली -110029

डॉ रेणु धींगरा, एनाटॉमी विभाग (एम्स) के तहत डीएसटी वित्त पोषित परियोजना के लिए निम्नलिखित पद के लिए (अनुबंध के आधार पर) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पद का नाम: जूनियर रिसर्च फेलो

अवधि: लगभग 2 साल

परियोजना का नाम: प्रीक्लेम्पसिया जैसे प्रतिकूल गर्भावस्था परिणामों में एक औषधीय न्यूनाधिक के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड की भूमिका

प्रोजेक्ट फंडिंग: डीएसटी

**आवश्यक योग्यता:**

एमएससी एनाटॉमी / बायोकेमिस्ट्री / बायोटेक्नोलॉजी / फार्माकोलॉजी / फिजियोलॉजी /

बायोफिजिक्स / लाइफ साइंस

नियमानुसार गेट / नेट योग्यता

**वांछनीय योग्यता:** आणविक जीव विज्ञान तकनीकों में व्यावहारिक अनुभव / ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार: सेल संस्कृति, आरएनए अलगाव, आरटी-पीसीआर, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोफ्लोरोसेंस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसके अलावा, कंप्यूटर और डेटा विश्लेषण के उपयोग से परिचित हैं

रटी-पीसीआर, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनोफ्लोरोसेंस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसी आणविक जीव विज्ञान तकनीकों में व्यावहारिक अनुभव / ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार। इसके अलावा, कंप्यूटर और डेटा विश्लेषण के उपयोग से परिचित हैं

आवेदन करने की अंतिम तिथि: अनुभव के साथ सीवी, 1 नवंबर, 2019 तक ईमेल के माध्यम से [renudhingraaiims@gmail.com](mailto:renudhingraaiims@gmail.com) पर पहुंचें विषय पंक्ति: जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन

*Renu Dhingra*  
12/10/19  
डॉ. रेणु धींगरा / Dr. Renu Dhingra  
आचार्य / Professor  
शरीर रचना विभाग  
Department of Anatomy  
अ. भा. आ. सं., नई दिल्ली-110029  
A. I. M. S., New Delhi - 110029



**All India Institute of Medical Sciences  
Ansari Nagar, New Delhi-110029**

Applications are invited for the following post (On contractual Basis) for the DST funded Project under Dr. Renu Dhingra, Department of Anatomy (AIIMS)

**Name of the Position:** Junior Research Fellow

**Duration:** Approx. 2 years

**Name of the project:** **Role of hydrogen sulfide as a pharmacological modulator in adverse pregnancy outcomes like preeclampsia**

**Project Funding:** DST

**Essential Qualification:**

MSc Anatomy/Biochemistry/ Biotechnology /Pharmacology/Physiology/ BioPhysics/Life sciences

GATE /NET qualification as per rules

**Desirable Qualification** :: Candidates to have practical experience/knowledge in molecular biology techniques like Cell culture , RNA isolation, rT-PCR, Immunohistochemistry, Immunofluorescence and western blotting . Also, familiar with the use of computers and data analysis

**Last Date for Application:** CV with experience, to reach by 1<sup>st</sup> Novemeber, 2019  
via e-mail to [renudhingraaiims@gmail.com](mailto:renudhingraaiims@gmail.com)  
Subject Line: Application for Junior Research Fellow

Or submit to room no 1040(B)/1013 Department of Anatomy first floor

Applications will be screened and selected candidates will be called for interview by e-mail.  
No TA/DA or accommodation will be provided for attending the interview.

(Tentative date of Interview : November first week , 2019)

*Renu Dhingra*  
18/10/19



डॉ. रेनु धींगरा/Dr. Renu Dhingra  
आचार्य/Professor  
शरीर रचना विभाग  
Department of Anatomy

डॉ. रेनु धींगरा/Dr. Renu Dhingra  
आचार्य/Professor  
शरीर रचना विभाग  
Department of Anatomy